



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 कार्तिक, 1940 (श०)

संख्या- 1024 राँची, गुरुवार, 8 नवम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

6 नवम्बर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-165/2017-2705 (HRMS)-- श्रीमती रजनी रेजीना इंदवार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरी, गिरिडीह के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-5338, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा अनधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने, स्वेच्छाचारित एवं अनुशासनहीनता संबंधी आरोप प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध कराते हुए श्रीमती इंदवार को निलंबित करने एवं इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गयी।

उक्त आरोपों के लिए श्रीमती इंदवार को विभागीय आदेश सं०-12014, दिनांक 8 दिसम्बर, 2017 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची निर्धारित किया गया तथा पत्रांक-12219, दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

उक्त के आलोक में श्रीमती इंदवार द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया है, जिसके आलोक में दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 के पूर्वाहन से इनका योगदान स्वीकृत किया गया।

श्रीमती इंदवार द्वारा प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों के प्रसंग में अपने पत्र, दिनांक 25 जनवरी, 2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया। श्रीमती इंदवार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2915, दिनांक 4 मई, 2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1926, दिनांक 18 मई, 2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है।

श्रीमती इंदवार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के मंतव्य के समीक्षोपरान्त, श्रीमती रजनी रेजीना इंदवार, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरी, गिरिडीह, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम- 14(i) तहत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। साथ ही, निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कोई भुगतान देय नहीं होगा, परन्तु निलंबन अवधि पेंशनादि के लिए कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में मान्य होगी।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAJNI REZINA INDWAR 111001163091	श्रीमती रजनी रेजीना इंदवार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरी, गिरिडीह सम्प्रति- निलंबित को निलंबन से मुक्त करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम- 14(i) के तहत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। साथ ही, निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कोई भुगतान देय नहीं होगा, परन्तु निलंबन अवधि पेंशनादि के लिए कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में मान्य होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
